

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- नवम्बर 10, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***331 वाहनों का चालान , 25 वाहनों से कुल 14900/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 02*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 69 व्यक्तियों से 6900/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इस्माइल पुत्र सुन्ना बंजर नि0 डेरवा टोला बलुआ थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी देशी शराब अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-550/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोहरत पुत्र बनारसी नि0 तिकोलिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-254/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विकास वर्मा पुत्र अर्जुन नि0 बरगदवा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-131/20, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बदरी लोध पुत्र अशफी नि0 हथियदवा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-251/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता मगरी पत्नी रामजतव नि0 मैवहवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-256/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. अभियुक्ता विटनी पत्नी वरमाली नि0 मैवहवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-255/20, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

NDPS अधि० के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जिबरील मंसूरी पुत्र कमरुद्दीन नि० लक्ष्मीपुर थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के पास से नशीला मुफीन इन्जेक्शन- 83 अदद, सेराजैक इन्जेक्सन-84 अदद, रेनेग्राम इन्जेक्सन-84 अदद बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- 167/20, 22 NDPS अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया।

401 IPC के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- -* अभियुक्तगण 1. बुध्दिराम साहनी पुत्र पट्टू उर्फ हथकडी नि० धानी बाजार थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज 2. रोहित पुत्र हरिराम नि० धानी बाजार थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज द्वारा एकत्र होकर चोरी की योजना बनाते समय पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- 252/20, धारा 401 IPC अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-10*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 09/10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 25 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।